

नारियल और रिफाइंड तेल से बन रहा था दूध: सरस डेयरी के कलेक्शन सेंटर पर पकड़ा हजारों लीटर

नकली दूध



अलवर सरस डेयरी के दूध कलेक्शन सेंटर से 2 हजारों लीटर नकली दूध मिला है। यह दूध नारियल तेल, रिफाइंड तेल और दूध पाउडर मिलाकर बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कलेक्शन सेंटर के लोग यह दूध दिल्ली सप्लाय करते थे, लेकिन सरस डेयरी को भी इसकी सप्लाय की आशंका जताई जा रही है।

दूध कलेक्शन सेंटर पर नकली दूध सोमवार देर रात मिला, जब खुद अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर और उनकी टीम के लोगों ने मिलावट करने वालों के यहां छापा मार दिया। इस छापे में 2 हजार लीटर नकली दूध मिला है। इसके साथ ही नारियल तेल, रिफाइंड ऑयल के पीपे, मिल्क पाउडर सहित ऐसे सामान मिले हैं, जिनसे नकली दूध बनाया जा रहा था।

मामला अलवर शहर से 40 किलोमीटर दूर खेड़ली कस्बे के गांव हंडू का बास का है। चेयरमैन को सूचना मिली थी कि दूध कलेक्शन सेंटर के मालिक राहुल खान(30) और उसके भाई आजाद खान के घर में बड़े पैमाने पर नकली दूध तैयार कर गोविंदगढ़ के रास्ते दिल्ली पहुंचाया जा रहा है। डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने खुद यहां छापा मारने का टारगेट सेट किया और एक रात में 2 दो हजार लीटर नकली दूध पकड़ लिया। हालांकि आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए हैं।

विश्राम गुर्जर ने बताया कि सोमवार शाम इसकी सूचना जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को दी और उन्हें यह भी बताया कि सरस डेयरी की टीम इस पर छापा मारना चाहती है। ऐसे में पुलिस की मदद की दरकार थी। जिला कलेक्टर ने जरूरत पड़ने पर नजदीकी दो थानों की पुलिस भेजने का आश्वासन दिया।

सोमवार शाम 6 बजे के करीब खुद विश्राम गुर्जर, MD राधेश्याम शर्मा और डिप्टी मैनेजर एचएस थेनवा को एक कार में लेकर अलवर शहर से हंडू का बास गांव की ओर निकले। कार में ड्राइवर समेत 4 लोग थे। हंडू का बास गांव अलवर शहर से 40 किलोमीटर दूर है। यह खेड़ली कस्बे में है। गांव की सीमा से 4 किलोमीटर पहले ही तीनों अधिकारियों ने कार छोड़ दी।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/alwar/news/3-officers-were-hiding-in-the-field-in-the-cold-for-30-minutes-130729375.html>